

लाखों के नकली मोबाइल, बैटरी व अन्य सामान के साथ दो गिरफ्तार

Publish Date: Wed, 16 Oct 2019 10:59 PM (IST)



थाना सदर की पुलिस ने बुधवार को दो आरोपितों को 1080 डुप्लीकेट मोबाइल फोन के साथ-साथ अन्य सामान व कार सहित काबू करने में सफलता पाई है।

जासं, मानसा : थाना सदर की पुलिस ने बुधवार को दो आरोपितों को 1080 डुप्लीकेट मोबाइल फोन के साथ-साथ अन्य सामान व कार सहित काबू करने में सफलता पाई है। जब्त किए माल की कीमत 34 लाख से अधिक बताई जा रही है। जानकारी देते हुए एसएसपी मानसा ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अश्विनी कुमार व राजीव कुमार निवासी शहीद भगत सिंह चौक मानसा बाहर से चाइना मेड का माल लाकर मोबाइल फोन के बैटरी पर नामी कंपनी के लोगो लगाकर पंजाब के मानसा, मौड़, तलवंडी, बठिडा आदि शहरों में बेचते हैं। अधिक जानकारी देते हुए डीएसपी मानसा हरजिंदर सिंह ने बताया कि सूचना पर सहायक थानेदार अवतार सिंह पुलिस चौकी बहनीवाल ने बहनीवाल में नाकाबंदी की हुई थी। तभी तलवंडी साबो से मानसा की ओर आ रही कार मारुति महिद्रा लोगन कार नंबर एचआर 26एक्यू 2200 को रोककर उसमें सवार दो व्यक्ति अश्विनी कुमार व राजीव कुमार को मौके पर ही काबू किया गया। कार से 1088 डुप्लीकेट मोबाइल फोन, 610 विभिन्न कंपनी के लोगो वाली डुप्लीकेट बैटरी, 320 हेड फोन, 1010 डॉटा केबलस, 400 मोबाइल चार्जर, 45 खाली रेपर(एमआई) आदि नकली तैयार सामान पुलिस ने गाड़ी में से बरामद कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपितों ने पूछताछ के दौरान बताया कि उन्होंने यह काम करीब 4 साल से चला रखा था। और यह डुप्लीकेट सामान दिल्ली व अन्य राज्यों से बिना बिल व टैक्स के ला रहे थे। पुलिस का कहना है कि काबू किए गए दोनों व्यक्तियों को अदालत में पेशकर पुलिस रिमांड हासिल किया जाएगा व गहनता से तफ्तीश की जाएगी। इसके अलावा कुछ दिन पहले बैटरियों सहित काबू किए आरोपित को पांच दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है।

Posted By: **Jagran**

Source: <https://www.jagran.com/punjab/mansa-two-arrested-with-fake-mobile-and-battery-19674004.html>